



सत्यमेव जयते

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड



केन्द्रीकृत रोजगार सूचना सं. (CEN) 01/2019

(एनटीपीसी ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु)

सीबीटी - 2 के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेतु नोटिस

1. प्रथम फेज के द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2), वेतन लेवल - 6 और 4 के लिए **09 और 10 मई-2022** को आयोजित की गई थी।
2. द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी -2) अगले फेज में वेतन लेवल-5, 3 और 2 के लिए मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर **12 जून -2022 से आगे** आयोजित होने की संभावना है।
3. आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन हेतु आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसरण में, रेलवे भर्ती बोर्ड को परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण और अन्य कदाचार रोकने के लिए एवं परीक्षा का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवारों के प्रमाणीकरण के लिए, स्वैच्छिक आधार पर आधार, प्रमाणीकरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
4. तदनुसार, दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेल भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।
6. कृपया उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से नौकरी के लिए, नियुक्ति के झूठे वादों के साथ उम्मीदवारों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। रेल भर्ती बोर्ड की चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) पर आधारित है तथा भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होती है।

दिनांक : 18.05.2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड